



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2005/फाल्गुन 25, 1926

No. 254]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2005/PHALGUNA 25, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

का.आ. 320(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 76(अ) तारीख 20 जनवरी, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित, संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 161 के सामने :—

- राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता का परिनिश्चय करने वाली राजमार्ग की सीमाओं के संबंध में स्तम्भ 3 के अंतर्गत "28/00-121/00" प्रविष्टि के स्थान पर "0/00-121/00" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- स्तंभ 5 के अंतर्गत किलोमीटर में लम्बाई के संबंध में "93, 200+" प्रविष्टि के स्थान पर "121, 228+" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. रा-11014/7/2003-पी एण्ड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2005

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 76(E) dated 20th January, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), namely :—

In the table to the said notification, against serial number 161 :—

- under column 3 relating to limits to the Highways defining jurisdiction of Highway Administration, for the entry "28/00-121/00", the entry "0/00-121/00" shall be substituted;
- under column 5, relating to length in km, for the entry "93, 200+", the entry "121, 228+" shall be substituted.

[No. NH-11014/7/2003-P & M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.